

Unit III

इकाई III

6. Explain different avenues for investment by a person.

किसी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए ।

7. What do you mean by loan management ? Explain.

ऋण प्रबंध से क्या अभिप्राय है ? समझाइए ।

Unit IV

इकाई IV

8. Describe and differentiate advance tax and tax deducted at source.

अग्रिम कर और स्रोत पर कर की कटौती का वर्णन कीजिए तथा अन्तर बताइए ।

9. Elaborate nomination and power of attorney.

प्रतिनिधि की शक्ति तथा नामांकन का विस्तार से वर्णन कीजिए ।

Subject Code—52979

M. Com. EXAMINATION

(Third Semester)

PERSONAL FINANCE

OE-303

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 70

Note : Attempt *Five* questions in all. Q. No. 1 is compulsory. All questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न क्र. 1 अनिवार्य है । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

(Compulsory Question)

(अनिवार्य प्रश्न)

1. Define the following terms :

- (a) Life-cycle
- (b) Asset allocation strategies

- (c) Risk management
- (d) Choice of products for risk coverage
- (e) Revision of portfolio management
- (f) Will
- (g) Advance Tax.

निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए :

- (अ) जीवन-चक्र
- (ब) परिसंपत्ति आवंटन रणनीतियाँ
- (स) जोखिम प्रबंध
- (द) जोखिम भरने के लिए उत्पादों का चुनाव करना
- (इ) पोर्टफोलियो प्रबंध की पुनर्वीक्षा
- (फ) इच्छा
- (ग) अग्रिम कर ।

Unit I

इकाई I

2. Explain the meaning and importance of personal financial planning in our daily life.

हमारे दैनिक जीवन में व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाने का अर्थ और महत्व को समझाए ।

3. Describe various types of cycles with reference to an individual.

किसी व्यक्ति के संबंध में विभिन्न प्रकारों के चक्रों का वर्णन कीजिए ।

Unit II

इकाई II

4. What do you mean by risk avoidance ? Explain with suitable example.

जोखिम से बचने से आप क्या समझते हैं ? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाए ।

5. How to assess the requirement of health insurance of an individual ? Elaborate.

किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता का मूल्यांकन कैसे करते हैं ?